

सार्वजनिक सूचना

सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीमैट)-2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र

23 दिसंबर 2020

देश में प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीमैट) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा एआईसीटीई से संबद्ध / प्रतिभागी संस्थानों में प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य स्नातक उम्मीदवारों का चयन करने हेतु सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा-2021 के आयोजन का विवरण निम्न प्रकार है :

दिनांक, परीक्षा शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया:

सीमैट -2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	23 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021	
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि (एसबीआई / एचडी एफसी क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग और पेटीएम भुगतान मोड के माध्यम से रात 11:50 बजे तक)	23 जनवरी 2021	
ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरण में सुधार की तिथि	25-30 जनवरी 2021	
परीक्षा तिथि	22/27 फरवरी 2021	
परीक्षा की अवधि	180 मिनट (3.00 घंटे)	
परीक्षा का समय	09:00 (प्रातः) से 12:00 (दोपहर) तक	3.00 (दोपहर) से 6.00 (शाम) तक
परीक्षा का मोड	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड	
प्रश्न पत्र का माध्यम	अंग्रेजी	
पाठ्यक्रम	परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एआईसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाएगा	

परीक्षा शुल्क का विवरण :

सामान्य (अनारक्षित)	पुरुष- ₹ 2000 / -	महिला- ₹ 1000 / -
सामान्य -ईडब्ल्यूएस / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / ओबीसी- (एनसीएल)	पुरुष- ₹ 1000 / -	महिला- ₹ 1000 / -
	ट्रांसजेंडर ₹ 1000/-	

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में अपने संबद्ध कॉलेजों में एमबीए (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) पाठ्यक्रम में, शैक्षिक वर्ष (2021) के प्रवेश के लिए सीमैट -2021 के स्कोर का उपयोग करेगा।

महत्वपूर्ण निर्देश:

- (i) अभ्यर्थी केवल "ऑनलाइन" मोड के माध्यम से सीमैट -2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन फार्म भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन फॉर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (iii) अभ्यर्थी, जो सीमैट -2021 की परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, वे विस्तृत जानकारी हेतु सीमैट -2021 की सूचना बुलेटिन जो निम्न वेबसाइट: cmat.nta.nic.in/www.nta.ac.in पर उपलब्ध है, देख सकते हैं।

(Handwritten Signature)

(डॉ. साधना पाराशर)
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)